



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 17-05-21

थाना कविनगर पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 756/2021 धारा 354क/342 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त भानू पुत्र रामप्रसाद बंसल निवासी कदवा पोस्ट गंज थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0 हाल निवासी झुग्गी झोपडी दुबई मॉल के पीछे आर डी सी थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 16.05.2021 को समय 20.00 बजे दुबई मॉल के पीछे आर डी सी थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा की नाबालिक पुत्री साथ छेडछाड की गयी जिसके सम्बन्ध में वादिया द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 756/2021 धारा 354क/342 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया, थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त भानू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

भानू पुत्र रामप्रसाद बंसल निवासी कदवा पोस्ट गंज थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0 हाल निवासी झुग्गी झोपडी दुबई मॉल के पीछे आर डी सी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष शिक्षा अनपढ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण:-

- 1- मु0अ0सं0 756/2021 धारा 354क/342 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 45ग्राम नशीला पाउडर

अल्प्राजोलम बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 17.05.2021 को चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त 1- मौ0 अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 70 फुटा रोड ओमेक्स टेलर के ऊपर निसारिया मस्जिद के पास न्यू सीमापुरी दिल्ली को 75 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु नशे के आदी लोगों को नशीला पाउडर बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मौ0 अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 70 फुटा रोड ओमेक्स टेलर के ऊपर निसारिया मस्जिद के पास न्यू सीमापुरी दिल्ली।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 915/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 75 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज बरामद।

थाना मुरादनगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल सहित मौके पर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.05.2021 को गांव डिडौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद से थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त इरफान अली पुत्र वासद अली गांव नगला रुद्ध थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

घटनाक्रम दिनांक 17.05.2021 को गांव डिडौली निवासी अजहर पुत्र महमूद व महमूद और गांव प्रधान अरूणेशवर अपने खेतों में काम कर रहे थे। अजहर की मोटरसाइकिल खेत में खड़ी थी तभी एक अज्ञात चोर दिन में ही मोटरसाइकिल को चोरी करके भागने लगा इस पर वादी द्वारा 100 नम्बर पर कॉल किया गया तो ग्रामीणों की सहायता से उक्त चोर को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 414/21 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

1. मोटरसाइकिल न0 UP14EF 2129

अभियुक्त

1. इरफान अली पुत्र वासद अली गांव नगला रुद्ध थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर

प्रभारी निरीक्षक नंदग्राम के निर्देशन में उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ल, है0का0 109 जयवीर सिंह थाना नंदग्राम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त सुमित पुत्र सोनू नि0 शनि मंदिर के सामने 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद को मय 01 अदद चाकू नाजायज के साथ दि0 17/05/2021 को नन्दग्राम टैम्पू स्टैन्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सुमित पुत्र सोनू नि0 शनि मंदिर के सामने 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

